

B- IV

L- 03

Economy

जी. डी. पी

- जी. डी. पी को किसी समयावधि (Time Period) के साथ जोड़ कर देखा जाता है जो कि सामान्यतः एक वर्ष होता है
- जी. डी. पी को निकालने के लिए मुख्य रूप से बाजार मूल्यों का प्रयोग किया जाता है

	Q	P	
A	10	x ₹ 10	= ₹ 100
B	5	x ₹ 50	= ₹ 250

2. GNP - Gross National Product (सकल राष्ट्रीय उत्पाद)

जी. डी. पी + Net factor Income earned abroad
विदेश में अर्जित निवल साधन आय।


↓
भारतीय साधनों द्वारा विदेशों में अर्जित आय (A)
(-)

विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय (B)

इस प्रकार -

$$GNP = GDP + (A - B)$$

इसे एक चित्र द्वारा भी दिखाया जा सकता है -



3. $NNP = \text{Net National Product}$ (निवल राष्ट्रीय उत्पाद)

$GNP - \text{Depreciation}$
(मूल्य ह्रास)

या
अपकर्ष या मशीनों उपकरणों आदि
की घिसावट का अनुमानित मूल्य।

नोट:-

मशीनों उपकरणों आदि की घिसावट होती रहती है जो कि एक प्रकार का नकारात्मक उत्पादन होता है। यही कारण है कि इसे GNP में से घटा दिया जाता है।

4. NNP_{fc} = Net National Product at factor cost
साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद

↓

NNP_{mp} — Indirect tax + सामंती
अप्रत्यक्ष कर

या

NNP_{mp} — Net Indirect Taxes,

Indirect taxes — Subsidy

KGS



IAS